

01

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 06.11.2020

अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन एवं श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 05-11-2020 को पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही।

दिनांक 05-11-2020 को जनपद सिद्धार्थनगर के सभी थाना क्षेत्रों में वाहन /अवैध शराब/ संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग का अभियान चलाया गया। जिसके अन्तर्गत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष द्वारा एम0वी0 एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये 223 वाहनों से 233800/ रु0 समन शुल्क वसूल किया गया।

01- कल दिनांक 05-11-2020 को जनपदीय पुलिसबल द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत की गयी कार्यवाही में जनपद के भिन्न-भिन्न थानों द्वारा 04 अभियुक्तों के पास से 40 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

02- थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त राजमन यादव पुत्र रामकेवल यादव साकिन बुद्धीखास झाना त्रिलोकपुर सिद्धार्थनगर के कब्जे से 01 अदद चाकू बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 223/2020 पंजीकृत कर 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत आवश्यक कार्यवाही की गयी।

02

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 06.11.2020

“देशी तमंचा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार”

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक के द्वारा “अपराध रोकथाम व अपराधियों” के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण व श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी इटवा तथा श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव, प्रभारी निरीक्षक इटवा के कुशल निर्देशन में एक अभियुक्त महबूब को करहिया पुल के पास से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ आज दिनांक 06.11.2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

नाम पता अभियुक्त –

01- महबूब पुत्र अनीस निवासी जबजौवा थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

01- वरिष्ठ उ0नि0 श्री रामेश्वर यादव, थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।

02- का. देवनाथ यादव, थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 06.11.2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक 06-11-2020 को पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में परेड की सलामी ली गई तथा परेड का निरीक्षण भी किया गया एवं प्रशिक्षण हेतु आए जेटीसी0 रिक्रूटों का भी निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात महोदय द्वारा पुलिस लाइन परिसर का निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा क्वार्टर गार्ड, स्टोर, शस्त्रागार, परिवहन शाखा, भोजनालय, गैस-गोदाम, आरटीसी0 बैरक एवं जलपान गृह, यू0 पी0 -112 कार्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाये रखने एवं ड्यूटी के दौरान समस्त कर्मचारियों को बावर्दी दुरुस्त रहकर अपनी ड्यूटी कर्तव्य निष्ठा के साथ करते हुये जनता से मधुर व्यवहार स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर क्षेत्राधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़/लाइन्स, क्षेत्राधिकारी बांसी, प्रतिसार निरीक्षक, समस्त थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 06.11.2020

आज दिनांक 06.11.2020 को श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं श्री माया राम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर व श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान में श्री राहुल सिंह यादव, प्रभारी निरीक्षक उसका बाजार के नेतृत्व में थाना उसका बाजार पुलिस द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गयी।

- 01-** मु.अ.सं. 220/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मीना पत्नी प्रेमदास साहनी निवासी पनियहवा थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर को एक पिपिया में 10 लीटर अबैध कच्ची शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया।
- 02-** शान्ति व्यवस्था कायम रखने के दृष्टिगत अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय खाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- 1-नन्दकिशोर पुत्र जोगेन्द्र निवासी पकडी थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।
- 3.अवैध वाहन चेकिंग के दौरान 12 अवैध वाहनों से 6600 / रुपये ई-चालान किया गया।
- 4.एंटी रोमिओ चेकिंग के दौरान 04 व्यक्तियों द्वारा माफीनामा भर कर छोड़ा गया।

चेंकिंग टीम का विवरण

- 1-उ.नि.श्री अनिल कुमार,थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
- 2-उ.नि.श्री मोतीलाल यादव,थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
- 3-हे.का.राकेश पासवान,थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
- 4- का. विष्णु यादव, थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
- 5- का.मुकेश सिंह, थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
- 6- म.का. रुपा यादव, थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 06.11.2020

श्री रामअभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में तथा श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थनगर व थानाध्यक्ष जयप्रकाश दूबे के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 06.11.2020 को थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने व संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के दृष्टिगत कुल 03 व्यक्तियों को अंतर्गत धारा 151/107/116 CrPC के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 06.11.2020**एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह व प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह के निर्देशन में दिनांक 06.11.2020 को शोहरतगढ़ पुलिस बल द्वारा मु0अ0सं0 283/2020 धारा 363,366,511 भा.द.वि. का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

01- शफीक उर्फ मोनू पुत्र जलील निवासी ग्राम सेमरा थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

01-उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

02-का. आदित्य यादव थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 06.11.2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में व श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर व श्री उमेश शर्मा क्षेत्राधिकारी, डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 06.11.2020 को प्रभारी निरीक्षक श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, व प्रभारी निरीक्षक डुमरियागंज श्री कृष्ण देव सिंह, द्वारा यातायात माह नवंबर के दृष्टिगत रफी मेमोरियल इंटर कॉलेज चकचई में छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों का पालन करने व लोगों को जागरूक करने हेतु बताया गया ! उक्त अभियान के मद्देनजर कालेज के छात्रों के साथ प्रभारी निरीक्षक भवानी गंज व प्रभारी निरीक्षक डुमरियागंज व प्रधानाध्यापक रफी मेमोरियल इंटर कालेज के व थाना फोर्स के साथ पैदल मार्च निकाला गया। लॉउडस्पीकर से लोगो को यातायात के नियमो के बारे में जागरूक किया। इस मौके (पैदल मार्च) पर क्षेत्र के प्रधान व अन्य वरिष्ठ व्यक्ति मौजूद रहे।

08

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 06.11.2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अनुपालन में तथा श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में, श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक श्री दिनेश चन्द्र चौधरी, थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में चिल्हिया पुलिस द्वारा आज दिनांक 06.11.2020 को शान्ति व्यवस्था कायम रखने व संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के दृष्टिगत 05 नफर अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही की गयी।

09

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 06.11.2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर व श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी, शोहरतगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 06.11.2020 को प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, व चौकी इंचार्ज खुनुआ श्री विक्रम अजीत राय, द्वारा यातायात माह नवंबर के दृष्टिगत शिवपति इंटर कॉलेज शोहरतगढ़ में छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों का पालन करने व लोगों को जागरूक करने हेतु बताया गया।

10

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 06.11.2020

दिनांक 06-11-2020 को यातायात माह के छठवे दिन यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्फटा भरने वाले वाहनों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 06-11-2020 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 474 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 325 वाहनों का चालान कर कुल 30355/- रुपये शमन शुल्क वसूल किया गया।

11

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 06.11.2020

एण्टी रोमियो स्क्वाड द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत की कार्यवाही में 13 शोहदे पकड़े गये।

जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम और जनपद के सभी थानों पर गठित टीमों द्वारा आज जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ वाले इलाके और पार्क आदि स्थानों पर पाए गए 13 मनचलों एवं शोहदों पर कार्यवाही की गयी।